



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6-मार्च 12, 2004 (फाल्गुण 16, 1925)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6—MARCH 12, 2004 (PHALGUNA 16, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिसूचनाओं की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 फरवरी 2004

सं० ए-22012/1/2004-पी०एम०ए०—श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम्, आई०ए० एस० (आंध्र प्रदेश: 1985) को डी० एफ० आई० डी०—इंडिया, ब्रिटिश उच्चायोग में विदेश सेवा-शर्तों पर गवर्नेस एडवाइजर के रूप में कार्यभार संभालने के लिए उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किये जाने के परिणामस्वरूप, उन्होंने दिनांक 16 फरवरी, 2004 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० के० राय, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2004

सं० धार० एस०/6(iv)/2004/8-कार्मिक—निम्नलिखित व्यक्तियों, जिन्हें सहपदावसान आधार पर बरिष्ठ निजी सचिव

1—482 GA/2003

के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 6 फरवरी 2004 से 15 दिनों की समापन अवधि प्रदान किए जाने के पश्चात् 21 फरवरी, 2004 के अपराह्न से समाप्त कर दी गई हैं :—

- अध्यक्ष, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण और वन संबंधी समिति के वैयक्तिक स्टाफ में कार्यरत श्री सी० राम कुमार।
- अध्यक्ष, वाणिज्य संबंधी समिति के वैयक्तिक स्टाफ में कार्यरत श्री ओमदत्त शर्मा।
- अध्यक्ष, गृह कार्य संबंधी समिति के वैयक्तिक स्टाफ में कार्यरत श्री एम० के० मुखर्जी।
- अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के वैयक्तिक स्टाफ में कार्यरत श्री मोहम्मद युनुस।
- अध्यक्ष, उद्योग संबंधी समिति के वैयक्तिक स्टाफ में कार्यरत श्री जी० पी० खरे।

(vi) अध्यक्ष, वक्ता बोर्डों के कार्यक्रम संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के वैयक्तिक स्टाफ में कार्यरत श्री मोहम्मद जमील अख्तर ।

वजुला जी० राजन, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 सितम्बर 2003

सं० एफ 15/10/2003/ए एन-1/जी एन-5020/2003—  
अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी 2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित व्यक्तियों को 15 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एस० आर० मिश्रा
2. श्रीमती रीना एम० जैकब
3. श्री सी० कल्याणसुन्दरम

2. वे 15 सितम्बर, 2003 से 14 सितम्बर, 2004 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा पर रहेंगे ।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता उन नये वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए यथासमय जारी किया जाएगा ।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2003

सं० एफ 15/10/2003/ए एन-1/जी एन-5026/2003—  
अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी 2002 तथा 27-28 दिसम्बर 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप डा० (श्रीमति) सागरिका दास को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 26 सितम्बर 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. वह 26 सितम्बर 2003 से 25 सितम्बर 2004 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा पर रहेंगे ।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता उन नए वरिष्ठता आदेशों के

अनुसार विनियमित की जाएगी जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए यथासमय जारी किया जाएगा ।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 नवम्बर 2003

सं० एफ 15/10/2003/ए एन-1/जी एन-5044/2003—  
अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी, 2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप श्री राजीव मणि को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 31 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. वह 31 अक्टूबर, 2003 से 30 अक्टूबर, 2004 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता पर रहेंगे ।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता उन नये वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए यथासमय जारी किया जाएगा ।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 नवम्बर 2003

सं० एफ 15/10/2003/ए एन-1/जी एन-5049/2003—  
अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी 2002 तथा 27-28 दिसम्बर 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति के अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप श्री एम० सी० सुरेश को 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 5 नवम्बर 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. वह 5 नवम्बर, 2003 से 4 नवम्बर, 2004 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा पर रहेंगे ।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता उन नये वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए यथासमय जारी किया जाएगा ।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 8 दिसम्बर 2003

सं० एफ 15/10/2003/ए एन-1/जी एन-5053/2003—  
अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी 2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप श्री लालकिशोर को 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 3 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह 3 दिसम्बर, 2003 से 2 दिसम्बर, 2004 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता उन नए वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए यथासमय जारी किया जाएगा।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2004

सं० एफ 15/10/2003/ए एन-1/जी एन-5061/2004—  
अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी, 2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीखों से अगले आदेशों तक 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नाम	नियुक्ति की तारीख
श्री एम० एल० के राजा	29-12-2003 (पूर्वाह्न)
श्री सी० वनलाल सहाता	26-12-2003 (पूर्वाह्न)
डा० युमनाम अरुण कुमार	29-12-2003 (पूर्वाह्न)

2. ये अधिकारी अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सी एस आदेश संख्या पीडीए-1076/2003 में यथा अंतर्विष्ट नए वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2004

सं० एफ 15/10/2003/ए एन-1/जी एन-5067/2004—  
अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी, 2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप श्रीमती ए० ज्योतिर्मयी को 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 5 जनवरी, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह 5 जनवरी, 2004 से 4 जनवरी, 2005 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सी एस आदेश संख्या पीडीए-1076/2003 में यथा अंतर्विष्ट नये वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2004

सं० एफ 15/10/2003/ए एन-1/जी एन-5073/2004—अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी, 2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप श्री पाओलियनलाल हो किप को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 15 जनवरी, 2004 के अपराह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह 15 जनवरी, 2004 से 15 जनवरी, 2005 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सी एस आदेश संख्या पी डी ए-1076-2003 में यथा अंतर्विष्ट नए वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 29 जनवरी 2004

सं० एफ 15/10/2003/ए एन-1/जी एन/5076/2004—  
अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी, 2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/

प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप श्री जगमोहन सिंह को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 22 जनवरी, 2004 के अपराह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह 22 जनवरी, 2004 से 22 जनवरी, 2005 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर बरिष्ठता 20 दिसम्बर 2003 के आर एण्ड सी एस आदेश संख्या पीडीए-1076/2003 में यथा अंतर्विष्ट नए बरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पी० एफ० 41/10/2003/एएन-1/जीएन-5077/2004—अध्यक्ष महोदय, श्री सतीश एम० गर्वई भा० प्र० से० (महाराष्ट्र 84) को इस सचिवालय में निदेशक (लाडिस) के ग्रेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 21 जनवरी, 2004 से 20 जनवरी, 2007 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पी० एफ० 2385(3)/जी एन-5078/ए एन-1/2004—अध्यक्ष महोदय 8000-13500 रु० के वेतनमान में शोध/संदर्भ अधिकारी, श्रीमती नीतम सेठा को 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक (लाडिस) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 29 जनवरी, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2004

सं० पी० एफ० 1895(3)/5080/एएन-1/2004—अधिवर्षिता की आपु प्राप्त करने पर श्रीमती प्रेमज्ञा अग्रवाल, शोध/संदर्भ अधिकारी 31 जनवरी, 2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गयी हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० एफ 15/10/2003/एएन-1/जी एन-5083/2004—अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी, 2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप श्री एच० राम प्रकाश को 8,000-275-13,500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 28 जनवरी, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह 28 जनवरी, 2004 से 27 जनवरी, 2005 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर बरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सी एस आदेश सं० पीडीए-1076/2003 में यथा अंतर्विष्ट नये बरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 फरवरी 2004

सं० पी० एफ 3660(3)/जीएन-5087/एएन-1/2004—श्री विज्ञानेश्वर भार्गव, स्थानापन्न संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II को 15-1-2004 से स्थायी आधार पर संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II में नियुक्त किया जाता है।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2004

सं० ए-11013/49/99-प्रशा० III—राष्ट्रपति, भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक डॉ० एम० बी० राव को योजना आयोग के सदस्य (श्री सोमपाल) के निजी स्टाफ के 10,000-325-15200 रुपये के वेतनमान में दिनांक 01-08-2003 (पूर्वाह्न) से निजी सचिव के रूप में सह-सत्र बसान आधार पर सदस्य योजना आयोग की इच्छा अथवा कार्यालय त्यागने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2004

सं० ए-12025/1/98-प्रशा-5—योजना आयोग के दिनांक 27 मई, 2003 एवं 31 अक्टूबर, 2003 के समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में, पर्यटन विभाग के सूचना सहायक श्री बी० बी० मुखोपाध्याय की योजना आयोग में प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति को, राष्ट्रपति, 12-08-2003 से 31-10-2003 तक की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी, 2004

सं० 20/जी/2062-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, खेद के साथ यह सूचित करते हैं कि गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री विजय प्रसाद कौशिक का दिनांक 25-01-2004 को निधन हो गया है।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2004

सं० आई-14011/19/2003-आईपीएस-1—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत राजस्थान संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

चयन सूची-1999

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	पी० आर० जेवारिया	05-10-1946
2.	बी० पी० वर्मा	25-07-1945
3.	हरीराम मीणा	01-05-1952
4.	गोवर्धन लाल मीणा	07-05-1952

चयन सूची-2000

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	सुश्री बादाम बैरवा	05-09-1947
2.	टी० सी० दामोर	15-03-1955
3.	एम० के० गोविल	25-09-1949

चयन सूची-2001

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	सी० बी० शर्मा	17-06-1950
2.	नन्धू लाल मोर्या	10-06-1952
3.	अशोक पटनी	19-08-1952

चयन सूची-2002

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	जनार्दन शर्मा	11-11-1954
2.	एल० एन० मीणा	05-01-1955

उपरोक्त नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर डी०बी० सिविल डब्ल्यू संख्या 32/2004 एवं डी०बी०सी० डब्ल्यू० पी० सं० 7909/2003 के अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

सं० आई-14011/19/2003-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में नीति उपबन्धों का प्रयोग हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 20-02-2004 को चयन समिति की दिनांक 09-10-2003 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 1999, 2000, 2001 एवं 2002 की उन वार्षिक चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग में वर्ष 1999, 2000, 2001 एवं 2002 में चार, चार, तीन एवं दो मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु राजस्थान राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

चयन सूची-1999

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	पी० आर० जेवारिया (अ०जा०)	05-10-1946
2.	बी० पी० वर्मा (अ०जा०)	25-07-1945
3.	हरीराम मीणा (अ०जा०)	01-05-1952
4.	गोवर्धन लाल मीणा (अ०जा०)	07-05-1952

चयन सूची 2000

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	सुश्री बादाम बैरवा (अ०जा०)	05-09-1947
2.	टी० सी० दामोर (अ०जा०)	15-03-1955
3.	एम० के० गोविल	25-09-1949

चयन सूची-2001

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	सी० बी० शर्मा	17-06-1950
2.	नन्धू लाल मोर्या (अ०जा०)	10-06-1952
3.	अशोक पटनी	19-08-1952

चयन सूची-2002

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	जनार्दन शर्मा	11-11-1954
2.	एल० एन० मीणा (अ०जा०)	05-01-1955

चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर डीबी सिविल डब्ल्यू सं० 32/2004 एवं डीबी० सी०डब्ल्यू०पी० सं० 7909/2003 के अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 फरवरी 2004

सं० 14046/254/2002-पुटीएस-II—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दण्डो एवं पार विधेय पुनित्त जेस के प्रेड-II अधिकारी श्री मुतिर जकरस का दिनांक 3 जनवरी, 2004 को निधन हो गया है।

एस० जे० थामस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2004

सं० I-18011/1/2004-आई० पी० एस०-IV—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिचीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री रूपा डी०, भा० पु० से० (कर्मिका : 2000) को दिनांक 4-9-2002 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

जे० वी० कौशिश, डैस्क अधिकारी

सं० I-18011/4/2002-आई० पी० एस०-IV—भारतीय पुलिस सेवा (परिचीक्षा) नियम, 1954 के उप नियम-3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल/नगराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि से उनकी सेवा को संयुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पुष्टि की तिथि
1	2	3
सर्वे/श्री		
1.	भरत वीर आन्चू, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1976)	11-7-1978
2.	के० एस० शंकरनारायणन, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1976)	14-11-1978
3.	जग बहादुर सिंह नेगी, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1976)	15-3-1979
4.	अकबर अली खान, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1976)	1-7-1979
5.	वागीस मिश्र, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1977)	13-11-1979
6.	राजेंद्र सिंह, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1977)	12-7-1979
7.	एस० जयशंकरा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1977)	12-11-1979
8.	नवल किशोर सिंह, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1977)	6-8-1979

1	2	3
9.	चत्तर सिंह पारचा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1977)	13-11-1979
10.	बी० बी० थम्बी, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1978)	14-11-1980
11.	गौतम मोहन चक्रवर्ती, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1978)	14-11-1980
12.	के० पी० प्रभाकर राव, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1979)	20-12-1981
13.	उत्पल कुमार दत्ता, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1979)	22-12-1981
14.	जोगेश चन्द्र चट्टोपाध्याय, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1979)	14-7-1981
15.	सुब्रत नारायण सरकार आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1979)	15-09-1981
16.	बंशीधर शर्मा आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1980)	15-09-1982
17.	सुरेन्द्र सिंह, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1980)	1580—वही—
18.	नजरुल इस्लाम, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1981)	02-12-1983
19.	विजय कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1981)	01-09-1983
20.	किशन लाल मीना, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1981)	11-01-1984
21.	रवीन्द्रजीत सिंह नलवा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1982)	01-09-1984
22.	जी०एम०प्रभु राजशेखर रेड्डी, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1982)	—वही—
23.	श्रीमती ममता अनुराग शर्मा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1982)	—वही—
24.	अनिल कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1982)	—वही—
25.	राज कन्नीजिया, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1982)	15-12-1984
26.	रणजीत कुमार पचनंदा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1983)	15-12-1985
27.	अरविंद कुमार मालीवाल, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1983)	—वही—
28.	बनीब्रता बसु आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1983)	—वही—
29.	दुर्गा पदा तरेनिया, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1983)	—वही—

1	2	3
30.	चिलुमुरी बेकारा मुरलीधर, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1984)	17-12-1986
31.	अमर कान्ति सरकार, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1984)	07-01-1987
32.	शिवाजी घोष, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1985)	23-12-1987
33.	सचिन श्रीधर, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1985)	-वही-
34.	सुरजीत कार पृकायस्थ, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1985)	-वही-
35.	अरुण कुमार गुप्ता, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1985)	26-08-1987
36.	के०हरी राजन, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1985)	23-12-1987
37.	बीरेन्द्र, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1985)	23-12-1987
38.	एम० हरि सेन वर्मा, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1985)	23-12-1987
39.	कुन्दन लाल टमटा, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1985)	20-01-1988
40.	राकेश कुमार गुप्ता, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1986)	25-08-1988
41.	गौरव चन्द्र दत्त, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1986)	25-08-1988
42.	मनोज मालवीय, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1986)	15-12-1988
43.	कुलदीप सिंह, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1986)	15-12-1988
44.	रायपुरी त्यागराज, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1986)	25-08-1988
45.	शशि भूषण सिंह तोमर, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1986)	15-12-1988
46.	श्रीमती सुमन बाला साहू, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1987)	24-08-1989
47.	पंड्या नीरज नयन, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1987)	31-08-1989
48.	अधीर शर्मा, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1987)	25-08-1989
49.	मृत्युंजय कुमार सिंह, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1987)	24-08-1989
50.	विभूति भूषण दास, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1987)	24-08-1989

1	2	3
51.	संजय चन्द्र आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1987)	15-12-1989
52.	एल० लेखोट्टन डोंगेल, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1987)	19-12-1989
53.	गंगेश्वर सिंह, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1987)	30-09-1989
54.	नन्द कुमार सरस्वदे, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1987)	24-08-1989
55.	सुधीर मिश्रा, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1988)	26-12-1990
56.	बी० नागा रमेश आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1988)	26-08-1990
57.	हरमन प्रीत सिंह, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1988)	26-12-1990
58.	जुलिकार हसन, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1988)	26-12-1990
59.	रामफल पवार, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1988)	25-8-1990
60.	सौमेन मित्रा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1988)	25-8-1990
61.	विवेक सहाय, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1988)	25-8-1990
62.	पथापु रवि, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1988)	20-8-1991
63.	कैलाश चन्द्र गीणा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1988)	21-8-1991
64.	संजय मुखर्जी, आई०पी०एस० (पश्चिम बंगाल : 1989)	20-8-1992
65.	राजीव कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1989)	20-8-1992
66.	रतवी कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1990)	20-8-1992
67.	राजेश कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1990)	20-8-1992
68.	दवाशीष राय, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1990)	27-12-1992
69.	बसु जयन्त कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1991)	27-9-1993
70.	शर्मा अनुज, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1991)	16-9-1993
71.	जग मोहन, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1991)	16-9-1993

1	2	3
72. बाबू एन० रमेश, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1991)	15-9-1993	
73. मनीष कुमार अग्रवाल, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1992)	15-10-1994	
74. सिद्ध नाथ गुप्ता, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1992)	14-10-1994	
75. संजय सिंह, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1992)	7-8-1996	
76. भगवानराम मेघवाल, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1992)	6-9-1995	
77. पीयूष पाण्डेय, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1993)	5-9-1996	
78. प्रवीण कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1993)	5-9-1995	
79. ज्ञानवन्त सिंह, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1993)	6-9-1995	
80. अजय कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1993)	5-9-1996	
81. शशिकान्त पुजारी, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1993)	05-09-1995	
82. नीरज कुमार सिंह, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1994)	28-11-1998	
83. विनीत कुमार गोयल, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1994)	04-09-1997	
84. मान सिंह, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1994)	04-09-1997	
85. अजय भुक्तान राणाडे, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1995)	03-09-1997	
86. जावेद शमीम, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1995)	28-12-1997	
87. आर० शिवकुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1995)	04-09-1998	
88. अनिल कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1995)	01-08-1999	
89. निकेतन कौशिक, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1995)	05-09-1998	
90. अजय कुमार नंद, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1996)	05-09-1998	
91. श्रीमती दमयन्ती सेन, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1996)	04-09-1998	
92. श्रीमती रश्मि सिन्हा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1996)	23-08-1999	

1	2	3
93. राजीव मिश्रा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1996)	05-09-1998	
94. महेन्द्र सिंह पूनिया, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल : 1996)	05-09-1998	
95. सुप्रतिम सरकार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल:1997)	07-09-1999	
96. राहुल श्रीवास्तव, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल:1997)	08-09-1999	
97. राजेश मुशानों, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल:1997)	08-09-1999	
98. डॉ० आर० राजशेखरन, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल:1997)	07-09-1999	
99. राजेश कुमार सिंह, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल:1997)	07-09-1999	
100. के० जयरामन, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल:1997)	07-09-1999	
101. गणजी अनिल श्रीनिवास, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल:1997)	07-09-1999	
102. आनन्द कुमार, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल: 1998)	07-09-2000	
103. विजयराज, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल: 1998)	-वही-	
104. अनिर्वाण रे (डॉ०) आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल: 1998)	-वही-	
105. हरि किशोर कुसुमकर, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल: 1998)	28-12-2000	
106. अशोक कुमार प्रसाद, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल: 1998)	07-09-2000	
107. मनोज कुमार बर्मा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल: 1998)	-वही-	
108. लक्ष्मी नारायण मीणा, आई० पी० एस० (पश्चिम बंगाल: 1998)	-वही-	

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

कार्मिक, लोक शिक्षण तथा रेशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2004

सं० 24011/01/98-स्था० (ख), भाग-II—श्री आर०  
के० टंडन का कार्मिक समाप्त होने पर, उन्होंने 23 जनवरी  
2004 को अरराह में, सदस्य कर्मचारी चयन आयोग का  
पद त्याग दिया है।

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव



नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2004

प्रवर सूची-2002

सं०-13017/36/93-अ० भा० से० (I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उड़ीसा और झारखंड सरकारों की सहमति से केन्द्रीय सरकार, श्री एस० के० सतपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : 86) का दिनांक 09-01-2003 से 31-03-2004 तक के लिए प्रतिनियुक्ति और आगे बढ़ाए जाने का अनुमोदन करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

दिनांक 23 फरवरी 2004

सं० 13017/21/99-अ० भा० से० (I)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सरकार तथा ए०जी०एम०यू०टी० संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी होने के नाते गृह मंत्रालय की सहमति से श्री एम० पी० सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : 86) की प्रतिनियुक्ति को अगमूट संवर्गों में एक वर्ष के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2004 तक अथवा उनके उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की अनुमति प्रदान करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

दिनांक 24 फरवरी 2004

सं० 14015/35/2001-अ० भा० से० (I) क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तरांचल संवर्ग में वर्ष 2001 के संबंध में 2 (दो), वर्ष 2002 के संबंध में 4 (चार) और वर्ष 2003 के संबंध में 3 (तीन) रिक्तियाँ भरे हुए चयन समिति द्वारा 27 दिसम्बर, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई उत्तरांचल राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली वर्ष 2001, वर्ष 2002 और वर्ष 2003 की प्रवर सूचियों को अनुमोदित कर दिया है :—

प्रवर सूची-2001

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
<b>सर्व/श्री</b>		
1.	राजीव चन्द्र	13-07-1951
2.	तुलाराम भट्ट	11-01-1948

1.	ललित मोहन पंत	01-01-1951
2.	डा० दिलबाग सिंह	01-05-1951
3.	गिरजा शंकर जोशी	24-06-1949
4*	कुंवर राज कुमार	27-04-1952

\*वर्ष 2002 की प्रवर सूची में क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित अधिकारी का नाम सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुसासनिक कार्य बाही से उनके मुक्त हो जाने की शर्त के अधिन है।

प्रवर सूची-2003

0.*	कुंवर राज कुमार	27-04-1952
1.	कुणाल शर्मा	22-08-1953
2.	विनीत कुमार पांडक	17-03-1949
3.	अजय सिंह नरियाल	28-05-1952

\*वर्ष 2003 की प्रवर सूची में क्रम संख्या 0 पर उल्लिखित अधिकारी का नाम, पदोन्नति विनियमों के विनियम 5(5) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत प्रवर सूची के सामान्य आकार के अंश सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 14015/35/2001-अ० भा० से० (I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिबीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, उत्तरांचल राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2001, 2002 और 2003 की रिक्तियों पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिबीक्षा पर, अगले अर्द्धवर्ष तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन उत्तरांचल संवर्ग आवंटित करते हैं :—

प्रवर सूची-2001

क्र० सं० अधिकारी का नाम

(सर्व/श्री)

1. राजीव चन्द्र
2. तुलाराम भट्ट

प्रवर सूची-2002

1. ललित मोहन पंत
2. डा० दिलबाग सिंह
3. गिरजा शंकर जोशी

## प्रवर सूची-2003

1. कुशल शर्मा
2. विनोद कुमार पाठक
3. अजय सिंह नबियाल

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी]

सं० 14015/12/2002-अ०भा०से०-(I) क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के विनियम 7 के उप विनियम (1) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के उड़ीसा संवर्ग के संबंध में वर्ष 2003 के दौरान मौजूदा एक रिक्ति भरने हेतु चयन समिति द्वारा 03-12-2003 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई उड़ीसा के गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारी के नाम वाली, वर्ष 2003 की प्रवर सूची अनुमोदित कर दी है :—

श्री रविन्द्र नारायण दास जन्म तिथि—14-09-1949-

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 14015/12/2002-अ०भा०से०-(I) ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के विनियम 8 के उप-विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, उड़ीसा के गैर-राज्य सिविल सेवा के श्री रविन्द्र नारायण दास को, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन उड़ीसा संवर्ग में आवंटित करते हैं।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

## विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2003

सं० क्यू/पी ए I/70/2003—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत श्री दिनकर अस्थाना को 02 दिसम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1.	श्री दिनकर अस्थाना	उप सचिव

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में पदोन्नत होने पर श्री दिनकर अस्थाना ने 02-12-2003 पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया

है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का पदभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संवर्ग)

सं० क्यू/पी ए I/71/2003—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत श्री ए० के० पांड्या को 28 अक्टूबर 2003 की पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1.	श्री ए० के० पांड्या	उप सचिव

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नत होने पर श्री ए० के० पांड्या ने 28-10-2003 पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का पदभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी  
उप सचिव (एफ एस पी/केडर)

दिनांक 12 दिसम्बर 2003

सं० क्यू/पी ए I/72/2003—राष्ट्रपति, वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में कार्यरत श्री अतिश सिन्हा को 01 दिसम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री अतिश सिन्हा	उच्चायुक्त भारतीय उच्चायोग, लायोस	01-12-2003

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 01-12-2003 पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का पदभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफ एम पी केडर)

दिनांक 15 दिसम्बर 2003

सं० क्यू/पी ए I/75/2003—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (आई एफ एस) के ग्रेड-III (इन सीटू) के अधिकारी श्री प्रदीप सिंह को 01 दिसम्बर 2003 पूर्वाह्न से सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न नियुक्त करते हैं।

2. श्री प्रदीप सिंह की भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में 01-12-2003 पूर्वाह्न से नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 1985 के कार्यालय आपन सं० 8/4/84-स्था० (वेतन-I) की शर्तों के अनुसार एक प्रोकार्मा प्रमोशन आधार पर है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/केडर)

सं० ब्यू/पीए-1/78/2003—राष्ट्रपति, वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में कार्यरत श्री अमर सिन्हा को 1 दिसम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
श्री अमर सिन्हा	कौंसल, भारतीय दूतावास, अकाता

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 1-12-2003 पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का पदभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/केडर)

दिनांक 18 दिसम्बर 2003

सं० ब्यू/पीए-1/78/2003—राष्ट्रपति, वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा (आई एफ एस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे ए जी) में कार्यरत श्री बी० बी० राव को 1 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति
श्री बी० वेंकटेश्वर राव	प्रथम सचिव, भारतीय दूतावास, वाशिंगटन

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV पर पदोन्नत होने पर श्री बी० बी० राव ने 1-12-2003 पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी एवं केडर)

दिनांक 19 दिसम्बर 2003

सं० ब्यू/पी ए-1/79/2003—राष्ट्रपति, वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत

श्री पी०के० रावत को 1 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति
श्री प्रदीप कुमार रावत	प्रथम सचिव, भारतीय दूतावास, बीजिंग

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV पर पदोन्नत होने पर श्री पी० के० रावत ने 01-12-2003 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी एवं केडर)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2004

सं० ए० 19014/2/2002-प्रशा० 2—वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्री शाम सुन्दर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका नाम इसी तारीख से विभाग की नामावली से हटाया जाता है।

एस० सोन्दर राजन, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2004

सं० ए-12022/1/2003-संवर्ग—राष्ट्रपति, श्री एस० के० कश्यप (आई०अर०एस०ई०ई०-85) को दिनांक 20-02-2004 के पूर्वाह्न से, पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो कोई भी पूर्व हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रुपए 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में वाणिज्य विभाग, पूर्ति प्रभाग में निदेशक (वित्त) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस० दास, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2004

सं० 2/2004 (सं० 6/2268/2001-एच० आर० डी०-1/626)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार कार्यालय, कानपुर में विदेश व्यापार विकास अधिकारी श्री अतवारू राम 31-1-2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के० चन्नामती, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

सं० 3/2004 (सं० 6/2063/95-एच०आर०डी०-1/623) — संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, पटना में विदेश व्यापार विकास अधिकारी श्री अर्जुन राम का दिनांक 9-10-2003 को देहान्त हो गया।

क० चन्द्रामती, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2004

सं० ए-22012/1/2002-व्या-1 — राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आर्थिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को दिनांक 1-1-2004 से दिनांक 30-6-2004 तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्ग में रुपये 12000-16500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सर्व श्री

1. वी०के० कालड़ा, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
2. जी०एम० वसना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

ज० ज० कौर, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2004

सं० ए-12023/02/2002-व्या-1 — राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए अथवा नियमित/चयन सूची अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम	नाम	विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ तैनाती है	अवधि
सं०			से तक
1	2	3	4 5
सर्व श्री			
1.	एस० के० श्रीवास्तव	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	01-01-2004 31-03-2004
2.	एम० सी० शर्मा	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	-वही- -वही-
3.	अमरेन्दर सिंह	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	-वही- -वही-
4.	आर० के० श्रीवास्तव	ल० उ० तथा कृ० ग्रा० उद्योग मंत्रालय	-वही- -वही-
5.	वी० वी० विश्वास	ल० उ० तथा कृ० ग्रा० उद्योग मंत्रालय	-वही- -वही-
6.	वी० के० श्रीवास्तव	भारी उद्योग विभाग	01-10-2003 -वही-
7.	राहुल महाना	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय	01-01-2004 -वही-
8.	दिनेश कुमार	विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय	-वही- -वही-
9.	सैमसुल हक	टैरिफ आयोग	-वही- -वही-
10.	ए० के० मिश्रा	टैरिफ आयोग	-वही- -वही-

1	2	3	4	5
11	पुनीत शर्मा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	1-1-2004	31-3-2004
12.	रमेश मिश्र	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	-वही-	-वही-
13.	एस० पी० चौपड़ा	ल० उ० तथा कृ० प्रा० उद्योग मंत्रालय	-वही-	-वही-
14.	एस० भार० मीना	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	01-10-2003	-वही-
15.	एस० सी० सक्सेना	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	01-01-2004	-वही-
16.	एस० एल० अग्रवाल	भारी उद्योग विभाग	-वही-	-वही-
17.	श्रीमती ऊमा माथुर	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	-वही-	-वही-

उपरोक्त नियुक्तियाँ बिल्कुल तदर्थ आधार पर की गई हैं और इसके कारण संबंधित अधिकारियों को उक्त पद में लम्बी अवधि तक कार्य करते रहने अथवा उक्त ग्रेड में नियमित किए जाने अथवा इस आधार पर वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार के पास संबंधित अधिकारियों को बिना कोई कारण बताए या नोटिस आदि दिए तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2004

सं० ए-19011/5/2001-स्थापना—राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के संवर्ग के श्री चन्द्र गुप्त की वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति 12000-16500/-रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 30-6-2004 या नियमित अधिकारी के उपलब्ध हों जाने, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं। यह नियुक्ति कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 जनवरी, 2004 के का० श० सं० 5/15/2003 सीएस-2 के अनुसार है।

2. श्री चन्द्र गुप्त की नियुक्ति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और इस तदर्थ नियुक्ति के कारण नियुक्त किए गए व्यक्ति को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

एल० एस० नेगी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2004

सं० ए-19011/3/2001-स्थापना—अधिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री विनय कोहली, भा० प्र० से० (ए एम : 1966), सचिव, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, सरकार की सेवा से 31 जनवरी, 2004 के अपराह्न से निवृत्त हो गए।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

सं० ए-19011/3/2004-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री प्रत्युष सिन्हा, भा० प्र० से० बिहार/1969 को 3 फरवरी, 2004 के अपराह्न से सचिव, रसायन और पेट्रो रसायन के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

कोयला और खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2004

सं० 12/1/2004-ए० एस० ओ०—राष्ट्रपति जी, श्री गौतम सान्याल, निदेशक, के० सं० सेवा को दिनांक 17-2-2004 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष के लिए अथवा जब तक कि उनका कार्य-काल मंत्री के निजी सचिव के रूप में समाप्त न हो जाए, अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए कोयला और खान मंत्री (सुश्री ममता बनर्जी) के निजी सचिव के रूप में सहव नियुक्त करते हैं।

टी० के० चौध, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 12 जनवरी 2004

सं० ए-32011/03/2003-प्रशा० 1(ए)—सक्षम प्राधिका-कारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक, श्री जी० के० सक्सेना को 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में विज्ञान और

प्रौद्योगिकी विभाग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में 9-1-2004 (पूर्वाह्न) से 25-2-2004 तक अथवा नियमित उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2004

सं० ए-12023/01/03—प्रशा० 1 (ए)—राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा संवर्ग के स्थायी ग्रेड "सी" आशुलिपिक, श्री एस० वी० मोहन को 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 3-2-2004 (पूर्वाह्न) से छह मास की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2004

सं० ए-32011/03/2003—प्रशा० 1 (ए)—इस विभाग की दिनांक 19-06-2003 तथा 18-09-2003 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 31-03-2004 तक अथवा नियमित उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष तदर्थ नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :—

1. श्रीमती वी० पी० मादरा
2. श्री ए० सी० मलिक
3. श्री वी० के० शर्मा
4. श्री सूर्य प्रकाश

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं० ए-11013/3/2003-पी II (. )—श्री आर० एल० ध्वेट, लेक्चरर, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेन्ड्री स्कूल, जशपुर नगर, छत्तीसगढ़ को एतद्द्वारा 1 फरवरी 2003 (पूर्वाह्न) से 10,000-15000/- रुपये के वेतनमान में पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री आर० एल० ध्वेट की नियुक्ति पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री के इच्छापर्यन्त उनके सेवाकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

श्री आर० एल० ध्वेट 1 फरवरी, 2003 (पूर्वाह्न) से इस वेतनमान में न्यूनतम वेतन अर्थात् 10,000 रुपये पाएंगे।

श्री ध्वेट को एतद्द्वारा 18-11-2003 से 17-12-2003 तक एक माह की समापन अवधि, 18-12-2003 से 29-12-2003 तक 12 दिन के लिए कार्यभार ग्रहण समय और 30-12-2003 से 29-2-2004 तक 62 दिन के लिए अर्जित अवकाश की अनुमति प्रदान की जाती है और उन्हें यह निदेश दिया जाता है कि वे अर्जित अवकाश समाप्त होने के बाद प्रिंसिपल, जवाहर लाल नेहरू सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, जशपुर नगर को इयूटी के लिए रिपोर्ट करें।

जफरल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 फरवरी 2004

सं० ए-38020/1/2004-सी०एच०एस०—IV—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग के सुपर टाइम ग्रेड के अधिकारी डा० एस० चुष ने अधिवर्तिताव्य प्राप्त कर लेने पर अपनी सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप 30 सितम्बर, 2003 के अपराह्न से परामर्शदाता (काय चिकित्सा), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल), नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2004

सं० 9-2/2004-नीति (ई०एस०)—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के दिनांक 10-2-2004 के संकल्प सं० 8-2/2003-नीति (ई०एस०) के अनुसरण में श्री आर० सी० ए० जैन ने सचिव (कृषि व सहकारिता) के वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त 10-2-2004 (अपराह्न) से राष्ट्रीय कृषक आयोग के सदस्य-सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

के० डी० सिन्हा, संयुक्त सचिव

सं० 9-2/2004-नीति (ई०एस०)—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के दिनांक 10-2-2004 के संकल्प सं० 8-2/2003-नीति (ई०एस०) के अनुसरण में श्री सोमपाल ने दिनांक 10-2-2004 (अपराह्न) से राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है।

के० डी० सिन्हा, संयुक्त सचिव

सं० 9-2/2004-नीति(ई०एस०)—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के दिनांक 10-2-2004 के संकल्प सं० 8-2/2003-नीति (ई०एस०) के अनुसरण में श्री राम बदन सिंह ने 11-2-2004 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय कृषक आयोग के पूर्ण कालिक सदस्य का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

के० डी० सिन्हा, संयुक्त सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं० 19-3/92-एफवाई-(प्रशा०) — राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण में उप महानिदेशक (इंजी) श्री सबस्टियन डी० गोंजागा को 1-1-2004 से स्वेच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

आर० के० मेहता, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 फरवरी 2004

सं० ए-39013/1/2004 प्रशा-I—राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्रीमती प्रीति आनन्द, कर्मचारी कोड सं० 4202, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली, में वैज्ञानिक-सी, के पद से त्यागपत्र दिनांक 16 फरवरी, 2004 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, संयुक्त निदेशक (प्रशा०)

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जनवरी 2004

सं० ए 32013/12/2001-प्रशा०-2—राष्ट्रपति, श्री के० एस० चन्द्रहासन, नियमित अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के समूह 'क' अधिकारी) को 7-1-2004 से दूरसंचार विभाग में 12000-16500/- रुपए के वेतनमान में निजी/स्व-स्थाने आधार पर उप सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

2. निजी अपग्रेडेशन/स्व-स्थाने आधार पर उप सचिव के रूप में श्री के० एस० चन्द्रहासन की उपरोक्त नियुक्ति से वे उप सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति अथवा उस ग्रेड में वरिष्ठता का कोई दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. उप सचिव के रूप में श्री के० एस० चन्द्रहासन की नियुक्ति किन्हीं अन्य आदेशों के अध्यधीन होगी जो केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली ओ०ए० सं० 2274/2001 और एम०ए० सं० 1906/2001 में पारित करें।

4. श्री के० एस० चन्द्रहासन को बीएसएनएल में निदेशक (डब्ल्यू एल और एस) के पद से उनके प्रत्यावर्तन के परिणाम-स्वरूप 7-1-2004 से दूरसंचार विभाग में शामिल किया जाता है।

सतीश वधवा, अवर सचिव (प्रशासन-2)

दिनांक 6 फरवरी 2004

सं० ए-32013/12/2001-प्रशा-II —राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के समूह "क" अधिकारी, अवर सचिव श्री मोहिन्दर सिंह की 12000-16500/- रुपए के वेतनमान में निजी/स्वस्थाने आधार पर उपसचिव के रूप में नियुक्ति को कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-01-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/27/2001-सीएस I के अनुसरण में 4-1-2004 से एक और वर्ष की अवधि तक बढ़ाते हैं।

2 12000-16500/- रुपए के वेतनमान में सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" के निदेशक (वीएडटी) के पद को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उपसचिव ग्रेड के संवर्ग में बनाए रखने की अवधि एतद्द्वारा 4-1-2004 से एक और वर्ष के लिए बढ़ायी जाती है जो श्री मोहिन्दर सिंह के लिए निजी तौर पर होगी।

3. निजी अपग्रेडेशन/स्वस्थाने आधार पर उपसचिव के रूप में श्री मोहिन्दर सिंह की उपरोक्त नियुक्ति उन्हें उपसचिव के रूप में नियमित नियुक्ति अथवा उस ग्रेड में वरिष्ठता का कोई दावा करने का पात्र नहीं बनाएगी और साथ ही वे उपरोक्त प्रतिनियुक्ति पद को केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में शामिल किए जाने पर उससे जुड़े किन्हीं अतिरिक्त भत्तों के पात्र भी नहीं होंगे।

4. निजी अपग्रेडेशन/स्व-स्थाने आधार पर उपसचिव के रूप में श्री मोहिन्दर सिंह की नियुक्ति किन्हीं अन्य आदेशों के अध्यधीन होगी जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान शाखा नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 2274/2001 और एम०ए० सं० 1906/2001 में पारित किए जाएं।

सतीश वधवा, अवर सचिव (प्रशा०-II)

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 फरवरी, 2004

सं० 100-2/2004-एसटीजी-1—भारतीय दूरसंचार सेवा समूह “क” में वरिष्ठ समयमान में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों का उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख को देहांत हो गया :

क्र०सं०	नाम, पद नाम और तैनाती स्टाफ सं०	देहांत की तारीख
1.	संकर दास, उप क्षेत्रीय प्रबंधक, दक्षिणी कोलकाता टेलीफोन, कोलकाता	11527 28/11/2003
2.	जी०एस० खिलारी मंडल अभियंता, एमटीएनएल, मुंबई	09338 26/11/2003

राम अवतार, अवर सचिव (एमजीटी)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 फरवरी 2004

सं० 1-2/2003-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री जे०एम० मिश्रा, भा०दू०सं० को दिनांक 20 फरवरी, 2004 (अपराह्न) से मद्रास (उत्पादन) दूरसंचार आयोग नियुक्त करते हैं।

एच०सी० जयाल, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2004

सं० 96/स्था० (राज०भ) I/5/1—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोवेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	(सर्वश्री/श्री/कु०)	
1.	अखिलेश मिश्रा	24-03-96
2.	विशाल कपूर	24-03-96
3.	अनुराग गुप्ता	24-03-96
4.	अंगशमली रस्तोगी	24-03-96
5.	रवि जैन	24-03-96
6.	ललित मोहन पाण्डेय	24-03-96
7.	धर्मेन्द्रा सानवाल	24-03-96
8.	निखिल अमित	24-03-96
9.	जयन्त कुमार	24-03-96

1	2	3
10.	अनिरुध कुमार	24-03-96
11.	अमित सारन	24-03-96
12.	अरूण देवराज	24-03-96
13.	रूपेश कोहली	24-03-96
14.	के० विनिता राव	24-03-96
15.	अतुल कुमार सिंह	24-03-96
16.	राहुल गुसाई	24-03-96
17.	एन० के० भंडारी	24-05-96

भरीष कुमार, संयुक्त निदेशक,  
स्वा० (जी०आर०) (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2004

सं० ई(जी०पी०)/2000/1/56—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल भंडार विभाग के उत्तर रेलवे (कार्यरत डी० रे० का०) के श्री एम० दास (अ० जा०) ग्रुप “बी” अधिकारी की 1 जुलाई 2002 से भारतीय रेल भंडार सेवा के ग्रुप “ए” कनिष्ठ घेतनमान में बूल रूप से नियुक्ति करने के वास्ते सहर्ष अनुमोदन करते हैं, बहरहाल, श्री एम० दास 1 मई 2003 से ही कनिष्ठ घेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

वी० एन० भाधुर, सचिव/रेलवे बोर्ड

शुद्धि पत्र

सं० ई(जी पी)/2002/1/56—14 जनवरी 2004 के समसंख्यक अधिसूचना के क्रम सं० 3 पर लिखे मामले की “बी” मकुंदा रेड्डी, के बजाय “यू मकुंदा रेड्डी” पंका जाए।

वी० एन० भाधुर, सचिव/रेलवे बोर्ड

सं० ई० आर वी०-I/2001/3/14—सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2002 के परिणामों के आधारे पर, श्री हरिवंश पाण्डेय को 5-2-2004 के पूर्वाह्न से 6500-10500/-रु० (सं० वे०) के घेतनमान में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (प्रोवेशनर) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

वी० एन० भाधुर  
सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पब्लिक अपर सचिव

सं० ई आर वी०-I/2003/2/32—श्री के०के० बाजपेई उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भा० रे० सि० इंजी० सेवा, सलाहकार (सिगनल), रेलवे बोर्ड को 9-2-2004 के अपराह्न से 24050-26000/-रु० के ग्रेड में अपर सब्सय (सिगनल) रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

वी० एन० भाधुर  
सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पब्लिक अपर सचिव



दिनांक 20 फरवरी 2004

सं० ई आर बी-I/2000/10/28—रेलवे बोर्ड के निम्न-लिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31-01-2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :—

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. श्री के० सुब्रह्मण्यम | कार्यपालक निदेशक    |
| 2. श्री अशोक भंडारी      | निदेशक              |
| 3. श्री के० बी० रमणा     | संयुक्त निदेशक      |
| 4. श्री जे० सी० जैन      | उप निदेशक           |
| 5. श्री सुरेश रमनानी     | अनुभाग अधिकारी      |
| 6. श्री जसवीर सिंह       | सहायक हिंदी अधिकारी |

वी० एन० माथुर, सचिव, रेलवे बोर्ड

इसके अतिरिक्त, उक्त नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्लू० पी० सं० 1863/2003 में दिये जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

डा० नरेश चन्द्र कौशिक, अवर सचिव

सं० ए-38012/2/2003-स्था०-I—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी श्री आर० पार्थसारथी अधिवर्षिता पर दिनांक 31-01-2004 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डा० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2004

सं० ए० 32013/5/2001-स्था-II—राष्ट्रपति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में इंजीनियरी (सड़क) वर्ग 'क' के अधिकारी श्री इंदु प्रकाश, मुख्य अभियंता को महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव के पद पर रुपये 26,000/ (नियत) के वेतनमान में दिनांक 30-01-2004 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर तीन महीने या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री इंदु प्रकाश की महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव के उक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्लू० पी० सं० 1863/2003 के अंतर्गत सी० एम० सं० 11163/2003 में दिनांक 21-1-2004 को दिये गए आदेश के अनुसरण में की जा रही है।

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2004

सं० 7/2004, फाईल सं० 25/1(1)/2002-स्थाना एक—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2001 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री किरण प्रामाणिक को दिनांक 3-12-2003 पूर्वाह्न से केंद्रीय जल आयोग में केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु० 8000-13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री किरण प्रामाणिक कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं० मवि/18/8/2000-स्था०—राष्ट्रपति, सुनम्प संपूरक स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित वैज्ञानिक 'डी' को 16,400-450-20,000/- रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर उनके नामों के सामने दी गई तिथियों से सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति का ग्रेड	पदोन्नति की तिथि
1.	डा० एस० राजन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'एफ'	1-7-2003
2.	डा० एम० पी० वाकडीकर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'एफ'	1-7-2003

बी० एल० कुरील, अवर सचिव

मं. प्रवि. 18/8/2002-स्था-राष्ट्रपति, सुनम्य संपूरक स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को 12,000-375-16,500/- रुपये के निवृत्तमान में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर उनके नामों के सामने दी गई तिथियों से महसूस पदान्तर करते हैं :-

क्रमांक	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति का ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1	1970 एस० कांकरा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	1-7-2003
2	1970 एस० सी० सुम० गुप्ता	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	1-7-2003
3	1970 एस० सी० झा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	1-7-2003

वी० एल० करील, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

दिनांक 24 फरवरी 2004

दिनांक 27 जनवरी 2004

नं० ए-12025/12090-मफ(ए)-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के निर्धारण पर श्री रघु कृष्ण को दिनांक 29-12-2009 तक के साथ हुए करार के निबंधन एवं शर्तों के अधीन 18,400-590-22,400/- रु० के वेतनमान में फिरोज प्रभात कर्मचारी में मुख्य निवृत्ति के पद पर दिनांक 13 जनवरी 2004 अथवा 15 अक्टूबर आचार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री रघु कृष्ण को नियुक्ति सम्बन्ध उच्च न्यायालय में विचारणीय और प्रतिक्रिया कपाडिया बनाम भारत संघ एवं अन्य का समक्ष आगुत मस्य 2152/2001 के अंतिम निर्णय के अनुसारे निर्णय

का. एम० शशिधरन, डेस्क अधिकारी

सं० 12025/3/98-एफ(ए) —राष्ट्रपति, श्री सी.जे. पोलाम  
की फिल्म प्रभाग में तदर्थ पदोन्नति पर संयुक्त मुख्य निमाता के  
पद पर 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में  
नियुक्ति की दिनांक 28 फरवरी, 2004 की पूर्वाह्न से अगले  
छह महीनों की अवधि के लिए या श्री बैकिंग कंपाडिया के  
निलंबन के प्रतिस्तरण अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले  
हो, बढ़ाते हैं।

यह तदर्थ नियुक्ति संयुक्त मुख्य निर्माता के पद पर नियमि-  
तीकरण या वरिष्ठता हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

के० एम० शशिधरन, डेस्क अधिकारी एफ(ए)

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi 110011, the 16th February 2004

No. A. 22012/1/2004-PMA—Consequent upon reversion to her parent cadre for taking up the assignment as Governance Advisor in DFID-India, British High Commission on foreign-service terms, Smt. Pushpa Subrahmanyam, IAS (AP:1985) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 16.2.2004.

PK ROY, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd February 2004

No. RS/6(iv)/2004/8-Perl—The services of the following individuals who were appointed as Senior Private Secretaries on co-terminus basis stand terminated with effect from the afternoon of the 21st February, 2004 after granting them a winding up period of 15 days with effect from 6th February, 2004:—

- (i) Shri C. Ram Kumar in the personal staff of Chairman, Committee on Science and Technology, Environment and Forests.
- (ii) Shri Om Datta Sharma in the personal staff of Chairman, Committee on Commerce.
- (iii) Shri M.K. Mukherjee in the personal staff of Chairman, Committee on Home Affairs.
- (iv) Shri Mohammad Yunus in the personal staff of Chairman, Committee on Human Resource Development.
- (v) Shri G.P. Khare in the personal staff of Chairman, Committee on Industry.
- (vi) Shri Mohammad Jamil Akhter in the personal Staff of Chairman, Joint Parliamentary Committee on Functioning of Wakf Boards.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 29th September 2003

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5020/2003—Consequent upon their selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint the following persons to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 15th September, 2003 until further orders:—

1. Shri S.R. Mishra.
2. Smt. Reena M. Jacob

## 3. Shri C. Kalyanasundaram

2. They will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 15th September, 2003 upto 14th September, 2004.

3. Their *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders being finalised and which will be issued in due course with retrospective effect.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 3rd October 2003

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5026/2003—Consequent upon her selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Dr. (Smt) Sagarika Dash to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 26th September, 2003 until further orders.

2. She will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 26th September, 2003 upto 25th September, 2004.

3. Her *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders being finalized and which will be issued in due course with retrospective effect.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 4th November 2003

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5044/2003—Consequent upon his selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Rajiv Mani to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 31st October, 2003 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 31 October, 2003 upto 30th October, 2004.

3. His *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders being finalized and which will be issued in due course with retrospective effect.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 12th November 2003

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5049/2003—Consequent upon her selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri M.C. Suresh to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 5th November, 2003 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 5th November, 2003 upto 4th November, 2004.

3. His *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders being finalized and which will be issued in due course with retrospective effect.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 8th December 2003

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5053/2003—Consequent upon her selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Lalkithang to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 3rd December, 2003 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 3rd December, 2003 upto 2nd December, 2004.

3. His *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders being finalized and which will be issued in due course with retrospective effect.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 1st January 2004

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5061/2004—Consequent upon their selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint

the following persons to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the dates as mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	Shri M.L.K. Raja	29.12.2003 (FN)
2.	Shri C. Vanlalruata	26.12.2003 (FN)
3.	Dr. Yumnam Arun Kumar	29.12.2003(FN)

2. They will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from respective date of their appointment.

3. Their *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders as contained in R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 13th January 2004

No. 15/10/2004/AN-I/GN-5067/2004—Consequent upon her selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Smt. A. Jyothirmayi to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 5th January, 2004 until further orders.

2. She will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 5th January, 2004 upto 4th January, 2005.

3. Her *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders as contained in R&CS Order No. PDA-1067/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 22nd January 2004

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5073/2004—Consequent upon his selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Paolienlal Haokip to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol

Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 15th January, 2004 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 15th January, 2004 upto 14th January 2005.

3. His *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders as contained in R&CS Order No. PDA-1067/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 29th January 2004

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5076/2004.—Consequent upon his selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Jagmohan Singh to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 22nd January, 2004 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 22nd January, 2004 upto 21st January 2005.

3. His *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders as contained in R&CS Order No. PDA-1067/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 41/10/2003/AN-I/GN-5077/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri Satish M. Gavai, IAS(MH : 84) to the grade of Director (LARRDIS) in this Secretariat on deputation basis for a period of three years with effect from 21st January, 2004 upto 20th January, 2007 or until further orders, whichever is earlier.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2385(3)/GN-5078/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Neelam Sethi, Research/Reference Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 to the grade of Assistant Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from 29th January, 2004, on ad-hoc basis until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 3rd February 2004

No. PF. 1895(3)/GN-5080/AN-I/2004.—On attaining the age of superannuation, Smt. Prem Lata Agarwal, Research/Reference Officer has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2004.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. 15/10/2003/AN-I/GN-5083/2004.—Consequent upon his selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri H. Ram Prakash to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 28th January, 2004 until further orders.

He will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 28th January, 2004 upto 27th January, 2005.

3. His *inter-se-seniority* in the grade Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders as contained in R&CS Order No. PDA-1067/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 12th February 2004

No. PF. 3660(3)/GN-5087/AN-I/2004.—Shri Vijnaneshwar Bhargawa officiating Parliamentary Interpreter Grade-II is appointed as Parliamentary Interpreter Grade-II in a substantive capacity with effect from 15.01.2004.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 11th February 2004

No. A-11013/49/99-Adm. III.—The President is pleased to appoint Dr. M.V. Rao, retired, Asstt. General Manager from State Bank of India as Private Secretary in the personal staff of Member (Sh. Som Pal) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on co-terminus basis w.e.f. 01.08.2003 (FN) till Member. Planning Commission desires or demits office, whichever is earlier.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

The 17th February 2004

No. A-12025/1/98-Adm. V.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 27th May, 2003 and 31st October, 2003, the President is pleased to extend the period of deputation of Shri B.B. Mukhopadhyay, Information Assistant of the Department of Tourism, as

Protocol Officer in the Planning Commission for a period w.e.f. 12.8.2003 to 31.10.2003.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th February 2004

No. 20/G/2062-Ad. I.—The President regrets to announce the death of Shri Vijay Parshad Kaushik, a Section Officer of the Central Secretariat Service Cadre of Ministry of Home Affairs, New Delhi on 25.01.2004.

S. K BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi, the 23rd February 2004

No. I-14011/19/2003-IPS. I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 5 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Rajasthan Police to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Rajasthan under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

SELECTION LIST – 1999

S.No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	P. R. Zevaria	05.10.1946
2.	B. P. Verma	25.07.1945
3.	Hariram Meena	01.05.1952
4.	Goverdhan Lal Meena	07.05.1952

SELECTION LIST – 2000

S.No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Ms. Badam Bairwa	05.09.1947
2.	T. C. Damore	15.03.1955
3.	M. K. Govil	25.09.1949

SELECTION LIST – 2001

S.No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	C. B. Sharma	17.06.1950
2.	Nathu Lal Morya	10.06.1952
3.	Ashok Patni	19.08.1952

SELECTION LIST – 2002

S.No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Janardan Sharma	11.11.1954
2.	L. N. Meena	05.01.1955

The inclusion of above names in the Select Lists are made subject to the final decision of Hon'ble High Court Rajasthan in DB Civil W.P. No. 32/2004 and DB CWP No. 7909/2003.

S. P. VERMA, Under Secy.

No. I-14011/19/2003-IPS. I.—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 20.02.2004, approved the year-wise Select Lists of 1999, 2000, 2001 and 2002, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 09.10.2003, containing the names of the following State Police Service Officers of Rajasthan, towards filling up four, three, three and two substantive vacancies in the IPS Rajasthan Cadre during 2003.

SELECTION LIST – 1999

S.No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	P. R. Zevaria (SC)	05.10.1946
2.	B. P. Verma (SC)	25.07.1945
3.	Hariram Meena (ST)	01.05.1952
4.	Goverdhan Lal Meena (ST)	07.05.1952

SELECTION LIST – 2000

S.No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Ms. Badam Bairwa (SC)	05.09.1947
2.	T. C. Damore (ST)	15.03.1955
3.	M. K. Govil	25.09.1949

SELECTION LIST – 2001

S.No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	C. B. Sharma	17.06.1950
2.	Nathu Lal Morya (SC)	10.06.1952
3.	Ashok Patni	19.08.1952

**SELECTION LIST – 2002**

S.No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Janardan Sharma	11.11.1954
2.	L. N. Meena (ST)	05.01.1955

The inclusion of above names in the Select Lists are made subject to the final decision of Hon'ble High Court Rajasthan in DB Civil W.P. No. 32/2004 and DB CWP No. 7909/2003.

S. P. VERMA, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 23rd February 2004

No. 14046/254/2002-UTS-II—Shri Sudhir Lakra, Grade-II officer of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service expired on 3rd January, 2004.

N. J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 24th February 2004

No. I-18011/1/2004-IPS. IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. Roopa. D, IPS (KTK : 2000), in Indian Police Service with effect from 04.09.2002.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

No. I-18011/4/2002-IPS. IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadres of WEST BENGAL/ MAHARASHTRA with effect from the dates mentioned against their names.

S. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
1.	2	3
	S/Shri	
1.	Bharat Vir Wanchoo, IPS (WB : 1976)	11.07.1978
2.	K. S. Sankaranarayanan, IPS (WB : 1976)	14.11.1978
3.	Jag Bahadur Singh Negi, IPS (WB : 1976)	15.03.1979
4.	Akbar Ali Khan, IPS (WB : 1977)	01.07.1979
5.	Vageesh Mishra, IPS (WB : 1977)	13.11.1979

1.	2	3
6.	Rajender Singh, IPS (WB : 1977)	12.07.1979
7.	S. Jayaraman, IPS (WB : 1977)	12.11.1979
8.	Nawal Kishore Singh, IPS (WB : 1977)	06.08.1979
9.	Chattar Singh Paarcha, IPS (WB : 1977)	13.11.1979
10.	V. V. Thambi, IPS (WB : 1978)	14.11.1980
11.	Goutam Mohan Chakraborty, IPS (WB : 1978)	14.11.1980
12.	K. P. Prabhakara Rao, IPS (WB : 1979)	20.12.1981
13.	Utpal Kumar Dutta, IPS (WB : 1979)	22.12.1981
14.	Jogesh Chandra Chattopadhyay, IPS (WB : 1979)	14.07.1981
15.	Subrata Narayan Sarkar, IPS (WB : 1979)	15.09.1981
16.	Banshidhar Sharma, IPS (WB : 1980)	15.09.1982
17.	Surender Singh, IPS (WB : 1980)	15.09.1982
18.	Nazrul Islam, IPS (WB : 1981)	02.12.1983
19.	Vijoy Kumar, IPS (WB : 1981)	01.09.1983
20.	Kishan Lal Meena, IPS (WB : 1981)	11.01.1984
21.	Ravinderjit Singh Nalwa, IPS (WB : 1982)	01.09.1984
22.	G.M. Prabhu Rajasekhar Reddy, IPS (WB : 1982)	01.09.1984
23.	Smt. Mamata Anurag Sharma, IPS (WB : 1982)	01.09.1984
24.	Anil Kumar, IPS (WB : 1982)	01.09.1984
25.	Raj Kanooja, IPS (WB : 1982)	15.12.1984
26.	Ranjit Kumar Panchmunda, IPS (WB : 1983)	15.12.1985
27.	Arvind Kumar Maliwal, IPS (WB : 1983)	15.12.1985
28.	Banibrata Basu, IPS (WB : 1983)	15.12.1985

1	2	3	1	2	3
29.	Durga Pada Tarenia, IPS (WB : 1983)	15.12.1985	53.	Gangeswar Singh, IPS (WB : 1987)	30.09.1989
30.	Chilumuri Venkara Muralidhar, IPS (WB : 1984)	17.12.1986	54.	Nanda Kumar Saravade, IPS (WB : 1987)	24.08.1989
31.	Amar Kanti Sarkar, IPS (WB : 1984)	07.01.1987	55.	Sudhir Mishra, IPS (WB : 1988)	26.12.1990
32.	Sivaji Ghosh, IPS (WB : 1985)	23.12.1987	56.	B. Naga Ramesh, IPS (WB : 1988)	26.08.1990
33.	Sachin Sridhar, IPS (WB : 1985)	23.12.1987	57.	Harman Prit Singh, IPS (WB : 1988)	26.12.1990
34.	Surajit Kar Pukayastha, IPOS (WB : 1985)	23.12.1987	58.	Zulfiquar Hasan, IPS (WB : 1988)	26.12.1990
35.	Arun Kumar Gupta, IPS (WB : 1985)	26.08.1987	59.	Ram Phal Pawar, IPS (WB : 1988)	25.08.1990
36.	K. Hari Rajan, IPS (WB : 1985)	23.12.1987	60.	Soumen Mitra, IPS (WB : 1988)	25.08.1990
37.	Virendra, IPS (WB : 1985)	23.12.1987	61.	Vivek Sahay, IPS (WB : 1988)	25.08.1990
38.	M. Hari Sena Verma, IPS (WB : 1985)	23.12.1987	62.	Pathapu Ravi, IPS (WB : 1988)	20.08.1991
39.	Kundan Lal Tamta, IPS (WB : 1985)	20.01.1988	63.	Kailash Chandra Meena IPS (WB : 1988)	21.08.1991
40.	Rakesh Kumar Gupta, IPS (WB : 1986)	25.08.1988	64.	Sanjoy Mukherjee, IPS (WB : 1989)	20.08.1992
41.	Gourav Chandra Dutt, IPS (WB : 1986)	25.08.1988	65.	Rajeev Kumar, IPS (WB : 1989)	20.08.1992
42.	Manoj Malavia, IPS (WB : 1986)	15.12.1988	66.	Ranvi Kumar, IPS (WB : 1990)	20.08.1992
43.	Kuldip Singh, IPS (WB : 1986)	15.12.1988	67.	Rajesh Kumar, IPS (WB : 1990)	20.08.1992
44.	Rayapuri Thyagaraju, IPS (WB : 1986)	25.08.1988	68.	Debasish Roy, IPS (WB : 1990)	27.12.1992
45.	Sashi Bhusan Singh Tomar, IPS (WB : 1986)	15.12.1988	69.	Basu Jayanta Kumar, IPS (WB : 1991)	27.09.1993
46.	Smt. Suman Bala Sahoo, IPS (WB : 1987)	24.08.1989	70.	Sharma Anuj, IPS (WB : 1991)	16.09.1993
47.	Pandeya Niraj Nayan, IPS (WB : 1987)	31.08.1989	71.	Jag Mohan, IPS (WB : 1991)	15.09.1993
48.	Adhir Sharma, IPS (WB : 1987)	25.08.1989	72.	Babu N. Ramesh, IPS (WB : 1991)	15.09.1993
49.	Mrityunjoy Kumar Singh, IPS (WB : 1987)	24.08.1989	73.	Manish Kumar Agrawal, IPS (WB : 1992)	15.10.1994
50.	Bibhuti Bhushan Dash, IPS (WB : 1987)	24.08.1989	74.	Siddh Nath Gupta IPS (WB : 1992)	14.10.1994
51.	Sanjay Chander, IPS (WB : 1987)	15.12.1989	75.	Sanjay Singh, IPS (WB : 1992)	07.08.1996
52.	L. Lenkhottan Doungel, IPS (WB : 1987)	19.12.1989	76.	Bhagwanram Meghwal, IPS (WB : 1992)	06.09.1995



1	2	3
77.	Peeyush Pandey, IPS (WB : 1993)	05.09.1996
78.	Praveen Kumar, IPS (WB : 1993)	05.09.1995
79.	Gyanwant Singh, IPS (WB : 1993)	06.09.1995
80.	Ajoy Kumar, IPS (WB : 1993)	05.09.1996
81.	Shashikant Pujari, IPS (WB : 1993)	05.09.1995
82.	Niraj Kumar Singh, IPS (WB : 1994)	28.11.1998
83.	Vineet Kumar Goyal, IPS (WB : 1994)	04.09.1997
84.	Man Singh, IPS (WB : 1994)	04.09.1997
85.	Ajeay Mukund Ranade, IPS (WB : 1995)	03.09.1997
86.	Jawed Shamim, IPS (WB : 1995)	28.12.1997
87.	R. Sivakumar, IPS (WB : 1995)	04.09.1998
88.	Anil Kumar, IPS (WB : 1995)	01.08.1999
89.	Niket Kaushik, IPS (MH : 1995)	05.09.1998
90.	Ajay Kumar Nand, IPS (WB : 1996)	05.09.1998
91.	Smt. Damayanti Sen, IPS (WB : 1996)	04.09.1998
92.	Smt. Rashmi Sinha, IPS (WB : 1996)	23.08.1999
93.	Rajeev Mishra, IPS (WB : 1996)	05.09.1998
94.	Mahender Singh Poonia, IPS (WB : 1996)	05.09.1998
95.	Supratim Sarkar, IPS (WB : 1997)	07.09.1999
96.	Rahul Srivastava, IPS (WB : 1997)	08.09.1999
97.	Rajesh Subarno, IPS (WB : 1997)	08.09.1999
98.	Dr. R. Rajasekaran,, IPS (WB : 1997)	07.09.1999
99.	Rajesh Kumar Singh, IPS (WB : 1997)	07.09.1999
100.	K. Jayaraman, IPS (WB : 1997)	07.09.1999

1	2	3
101.	Ganji Anil Srinivas, IPS (WB : 1997)	07.09.1999
102.	Anand Kumar, IPS (WB : 1998)	07.09.2000
103.	Tripurari, IPS (WB : 1998)	07.09.2000
104.	Anirban Ray (DR.), IPS (WB : 1998)	07.09.2000
105.	Hari Kishore Kusumakar, IPS (WB : 1998)	28.12.2000
106.	Ashok Kumar Prasad, IPS (WB : 1998)	07.09.2000
107.	Manoj Kumar Verma, IPS (WB : 1998)	07.09.2000
108.	Lakshmi Narayan Meena, IPS (WB : 1998)	07.09.2000

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 13th February 2004

No. 24011/01/98-Estt(B), Part. II—Consequent upon expiry of his term, Shri R.K. Tandon has demitted the office of Member, Staff Selection Commission in the afternoon of 23rd January 2004.

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

New Delhi, the 20th February 2004

No. 13017/36/93-AIS(I)—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadare) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Jharkhand and Orissa, the Central Govt. hereby accords approval for extension of deputation of Shri S.K. Satapathy, IAS (RR : 86), from the IAS Cadre of Jharkhand, to the IAS cadre of Orissa for a further period from 9.1.2003 to 31.3.2004.

K. K. SHARMA, Desk Officer

The 23rd February 2004

No. 13017/21/99-AIS(I)—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadare) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Punjab and Ministry of Home Affairs as the cadre controlling authority for the AGMUT, the Central

Govt. hereby accords approval for continuation of deputation of Shri M.P. Singh, IAS (RR : PB : 86), to AGMUT for a period of one year upto 6th July 2004 or till his successor joins, whichever, is earlier.

K. K. SHARMA, Desk Officer

The 24th February 2004

No. 14015/35/2001-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists of 2001, 2002 and 2003 for Uttaranchal, containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Uttaranchal prepared by the Selection Committee in its meeting held on 27th December 2003, towards filling up 02 (two) vacancies for 2001, 04 (four) vacancies for 2002 and 3 (three) vacancies for 2003 in the Indian Administrative Service, Uttaranchal Cadre :—

#### SELECT LIST 2001

Sl. No.	Name of the Officer (S/Sh.)	Date of Birth
1.	Rajeev Chandra	13.07.1951
2.	Tula Ram Bhat	11.01.1948

#### SELECT LIST 2002

1.	Lalit Mohan Pant	01.01.1951
2.	Dr. Dilbagh Singh	01.05.1951
3.	Girja Shanker Joshi	24.06.1949
4.*	Kunwar Raj Kumar	27.04.1952

\*The officer at Sl. No. 4 in the Select List of 2002 has been included provisionally subject to clearance from disciplinary proceedings pending against him.

#### SELECT LIST 2003

0*	Kunwar Raj Kumar	27.04.1952
1.	Kunal Sharma	22.08.1953
2.	Vinod Kumar Pathak	17.03.1949
3.	Ajai Singh Nabiyal	28.05.1952

\*The officer at Sl. No. 0 in the Select list of 2003 has been included in the list provisionally in addition to the normal size of the Select List under the second proviso to Regulation 5(5) of the Promotion Regulations.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/35/2001-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-

regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Uttaranchal to the Indian Administrative Service against the vacancies of the years 2001, 2002 and 2003 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Uttaranchal Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

#### SELECT LIST 2001

Sl. No. Name of the Officer  
(S/Sh.)

1. Rajeev Chandra
2. Tula Ram Bhat

#### SELECT LIST 2002

1. Lalit Mohan Pant
2. Dr. Dilbagh Singh
3. Girja Shanker Singh Joshi

#### SELECT LIST 2003

1. Kunal Sharma
2. Vinod Kumar
3. Ajai Singh Nabiyal

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/12/2002-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2003 containing the name of the following non-State Civil Service officer of the State of Orissa prepared by the Selection Committee in its meeting held on 03.12.2003, towards filling up one existing vacancy during 2003, in the Orissa cadre of the Indian Administrative Service :—

Sh. Rabindra Narayan Dash D.O.B. 14.09.1949

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/12/2002-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri Rabindra Narayan Dash, a non-State Civil Service Officer of Orissa, to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate

Officers in the same cadre on ad-hoc basis for the period, as indicated against each, or till such time a regular/Select List Officer becomes available, or till further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Name of the Department/Office	Period From	To
S/Shri				
1.	S.K. Srivastava	D/o IP&P	01.01.04	31.03.04
2.	M.C. Sharma	M/o FPI	-do-	-do-
3.	Amarendra Singh	D/o IP&P	-do-	-do-
4.	R.K. Srivastava	M/o SSI&ARI	-do-	-do-
5.	B.B. Biswas	M/o SSI&ARI	-do-	-do-
6.	V.K. Srivastava	D/o HI	01.10.03	-do-
7.	Rahul Mahna	O/o EA	01.01.04	-do-
8.	Dinesh Kumar	O/o DC (SSI)	-do-	-do-
9.	Samsul Haque	Tariff Commission	-do-	-do-
10.	A.K. Mishra	Tariff Commission	-do-	-do-
11.	Puneet Sharma	D/o IP&P	-do-	-do-
12.	Dalpat Singh	D/o IP&P	-do-	-do-
13.	S.P. Chopra	M/o SSI&ARI	-do-	-do-
14.	S.R. Meena	M/o FPI	01.10.2003	-do-
15.	S.C. Saxena	D/o IP&P	01.01.04	-do-
16.	S.L. Aggarwal	D/o HI	-do-	-do-
17.	Smt. Uma Mathur	D/o IP&P	-do-	-do-

The appointments, ordered above, are made on purely ad-hoc basis and do not confer any right upon the officers concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notice etc. to the officers concerned.

J. J. KAUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 28th January 2004

No. A-19011/5/2001-Est.—The President is pleased to further extend the ad hoc appointment of Shri Chander Gupt as Senior Principal Private Secretary borne on the Cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas in the Pay scale of Rs. 12,000-16,500/- on ad hoc basis upto 30.06.2004 or till regular officer becomes available whichever is earlier. This appointment is in terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/15/2003-CS-II dated 6th January, 2004.

2. The appointment of Shri Chander Gupt is being made purely on ad hoc basis and that ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right for regular appointment

or seniority in the grade of Sr. Principal Private Secretary of CSSS.

L. S. NEGI, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

##### (DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 3rd February 2004

No. A-19011/3/2001-Est.—On attaining the age of superannuation, Shri Vinay Kohli, IAS (AM : 1966), Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals retired from service of the Government in the afternoon of 31st January, 2004.

R.P. VASISHTHA, Under Secy.

No. A-19011/3/2004-Est.—The President is pleased to appoint Shri Pratyush Sinha, IAS (BH : 1969) as Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals with effect from the afternoon of 3rd February, 2004.

R.P. VASISHTHA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COAL & MINES

##### (DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 17th February 2004

No. 12/1/2004-ASO.—The President is pleased to appoint Sh. Goutam Sanyal, C.S.S, Director, as Private Secretary to Minister of Coal & Mines (Ms. Mamata Banerjee) with effect from 17.2.2004(FN) for a period of 5 years or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

T. K. GHOSH, Dir.

#### MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

##### (DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 12th January 2004

No. A. 32011/03/2003-Admin. I(A).—The Competent Authority is pleased to appoint Shri B. K. Sachdeva a permanent Assistant of CSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology from 09.01.2004 (F.N.) to 25.02.2004 or till regular candidate joins, whichever is earlier.

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

The 4th February 2004

No. A. 12023/01/2003-Admin. I(A).—The President is

pleased to appoint Shri S. V. Mohan, a permanent Grade 'C' Stenographer of CSSS cadre of Ministry of Science and Technology as Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the Ministry of Science and Technology for a period of six months with effect from 03.02.2004 (FN) or until further orders.

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

The 16th February 2004

No. A. 32011/03/2003-Admn. I(A).—In continuation of this Department's Orders of even number dated 19.06.2003 & 18.09.2003, the Competent Authority is pleased to extend the ad-hoc appointment of following permanent Assistants of CSS Cadre or the Ministry of Science and Technology as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Department of Science and Technology upto 31.03.2004 or till regular candidate joins, whichever is earlier.

1. Smt. V. P. Madra
2. Shri A. C. Mallick
3. Shri V. K. Sharma
4. Shri Surya Prakash

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 17th February 2004

No. A-11013/3/2003-P. II. (.).—In partial modification of this Ministry's notification of even number dated 4th February, 2004, Shri R. L. Thawait, Lecturer, in Jawaharlal Nehru Senior Secondary School, Jashpur Nagar, Chhattisgarh, is hereby appointed as Additional Private Secretary to former Minister of State for Environment and Forest in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200/- w.e.f. 1st February, 2003 (F.N.) to 17th November, 2003 (A.N.).

The appointment of Shri R. L. Thawait, was on co-terminus basis with and at the pleasure of the former Minister of State for Environment and Forests.

Shri R. L. Thawait will draw pay at the minimum of the scale i.e. Rs. 10,000 w.e.f. 1st February, 2003 (F.N.) to 17th November, 2003 (A.N.).

Shri Thawait is hereby allowed winding up period for one month from 18.11.2003 to 17.12.2003, joining time of 12 days from 18.12.2003 to 29.12.2003 and Earned Leave of 62 days from 30.12.2003 to 29.2.2004 and is directed to report to the Principal, Jawaharlal Nehru Senior Secondary School, Jashpur Nagar after expiry of Earned leave.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 13th February 2004

No. A. 38020/1/2004-CHS. IV.—Consequent on his retirement from service on attaining the age of superannuation. Dr. S. Chugh, an officer of the Superfine Grade of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service relinquished charge of the post of Consultant (Medicine), CGHS (RML) Hospital, New Delhi with effect from the afternoon of the 30th Sept. 2003.

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 12th February 2004

No. 9-2/2004-Policy (ES).—In pursuance of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Resolution No. 8-2/2003-Policy (ES) dated 10.2.2004, Shri R. C. A. Jain has taken over the charge of the post of Member-Secretary, National Commission on Farmers (NCF) with effect from 10.02.2004 (AN) in addition to his present charge of Secretary (Agriculture & Cooperation).

K. D. SINHA, Jt. Secy.

No. 9-2/2004-Policy(ES)—In pursuance of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Resolution No. 8-2/2003-Policy (ES) dated 10.2.2004, Shri Sompal has taken over the charge of the post of Chairman, National Commission on Farmers (NCF) with effect from 10th February, 2004 (A.N.).

K. D. SINHA, Jt. Secy.

No. 9-2/2004-Policy(ES)—In pursuance of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Resolution No. 8-2/2003-Policy (ES) dated 10.2.2004, Shri Ram Badan Singh has taken over the charge of full time Member of the National Commission on Farmers (NCF) with effect from 11.2.2004 (F.N.).

K. D. SINHA, Jt. Secy.

#### (DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 22nd January 2004

No. 19-3/92-Fy(Admn.).—The President is pleased to permit Shri Sebastian De Gonzaga, Deputy Director General (Engg.) in Fishery Survey of India, a subordinate Office under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry & Dairying to retire voluntary from 1.1.2004. Accordingly, he is relieved from Government Service on the Forenoon of 01.01.2004.

R.K. MEHTA, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY**

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

**NATIONAL INFORMATICS CENTRE**

New Delhi-110 003, the 16th February 2004

No. A-39013/1/2004-Admn.-I—The President is pleased to accept the resignation of Ms. Brijl Anand, Emp-Code-4202, from the post of Scientist 'C', National Informatics Centre, New Delhi, with effect from the afternoon of 16th February 2004 and she is relieved of her duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Dir. (Admn.)

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110 001, the 28th January 2004

No. A-32013/12/2001-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri K.S. Chandrasekhar, a regular Under Secretary (a Group 'A' Officer of CSS) as Deputy Secretary on personal/in-situ basis in the pay scale of Rs. 12000-16500/- in the Department of Telecom. w.e.f. 7.1.2004.

2. The above appointment of Shri K.S. Chandrasekhar as Deputy Secretary on personal upgradation/in-situ basis will not entitle him to any claim for regular appointment as Deputy Secretary or seniority in that grade.

3. Appointment of Shri K.S. Chandrasekhar as Deputy Secretary will be subject to any further orders that may be passed by the CAT, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 2274/2001 and M.A. No. 1906/2001.

4. Shri K.S. Chandrasekhar is taken on the strength of the Department of Telecommunications w.e.f. 7.1.2004 consequent upon his repatriation from the post of Director (WI & S) in BSNL.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn.II)

The 06th February 2004

No. A-32013/12/2001-Admn.II—The President is pleased to extend the appointment of Shri Mohinder Singh, Under Secretary, a Group 'A' officer of CSS as Deputy Secretary on personal/in-situ basis in the pay scale of Rs. 12000-16500/- in the Department of Telecom. for a further period of one year w.e.f. 4.1.2004 in terms of DoP&T's O.M. No. 21/27/2001-CS.I dated 13.1.2004.

2. Encadrement of the post of Director (V&T), a GCS Group 'A'; post, in the pay scale of Rs. 12000-16500/-, into the Deputy Secretary Grade of CSS is hereby extended for a further period of one year w.e.f. 4.1.2004 as personal to Shri Mohinder Singh.

3. The above appointment of Shri Mohinder Singh as Deputy Secretary on personal upgradation/in-situ basis will not entitle him to any claim for regular appointment as Deputy Secretary or seniority in that grade and he will also not be

entitled to any additional allowance attached to the above deputation post on its encadrement in CSS.

4. Appointment of Shri Mohinder Singh as Deputy Secretary on personal upgradation/in-situ basis will be subject to any further orders that may be passed by the CAT, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 2274/2001 and M.A. No. 1906/2001.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn.II)

New Delhi-110001, the 17th February 2004

No. 100-2/2004-STG-I—The following officers of Senior Time Scale of Indian Telecom Service Group 'A' expired on the date(s) mentioned against their names :-

Name, Designation & Circle of Posting	Staff No.	Date of Death
Sankar Das, Deputy Area Manager, South Calcutta Telephone, Kolkata	11527	28.11.2003
G.S. Khilari, DE, MTNL, Mumbai	09338	26.11.2003

RAM AUTAR, Under Secy. (SGT)

New Delhi-110 001, the 20th February 2004

No. 1-2/2003-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri J.M. Mishra, (ITS) as Member (Production), Telecom Commission, with effect from the afternoon of 20th February, 2004.

H.C. JAYAL, Jt. Secy.

**MINISTRY OF RAILWAYS**

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 11th February 2004

No. 96/E(GR)/5/2—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each :-

S.No.	Name	Date of Joining
1		2 3
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Akhilash Mishra	24.03.96
2.	Vishal Kapoor	24.03.96
3.	Anurag Gupta	24.03.96
4.	Angshumali Rastogi	24.03.96
5.	Ravi Jain	24.03.96
6.	Lalit Mohan Pandey	24.03.96
7.	Dharmendra Sanwal	24.03.96
8.	Nikhil Amit	24.03.96

1.	2	3
9.	Jayant Kumar	24.03.96
10.	Anirudh Kumar	24.03.96
11.	Amit Saran	24.03.96
12.	Arun Devraj	24.03.96
13.	Rupesh Kohli	24.03.96
14.	K. Vinita Rao	24.03.96
15.	Atul Kumar Singh	24.03.96
16.	Rahul Gosain	24.03.96
17.	N.K. Bhandari	24.05.96

MANEESH KUMAR, Jt. Dir., Estt. (GR)  
Railway Board

New Delhi, the 19th February 2004

No. E(GP)2000/1/56—The President is pleased to approve of Shri M. Dass (SC), a Group 'B' officer of Stores Department of Northern Railway (working in DCW), being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 01.7.2002, on that Railway. Shri M. Dass would, however, be entitled to monetary benefit in Jr. Scale w.e.f. 01.05.2003 only.

V.N. MATHUR, Secy.  
Railway Board

#### CORRIGENDUM

No. E(GP)2002/1/56—The name appearing at S.No. 3 of notification of even number dated 14.01.2004 may be read as "U. MUKUNDA REDDY", instead of "D. Mukunda Reddy".

V.N. MATHUR, Secy.  
Railway Board

No. ERB-I/2001/3/14—On the basis of results of Civil Services (Main) Examination-2002, Shri Hari Bansh Pandey, is appointed as Section Officer (Probationer) of Railway Board Secretariat Service, in the scale of Rs. 6500-10500(RS), with effect from the forenoon of 05.02.2004.

V.N. MATHUR, Secy., Railway Board &  
Ex-officio Addl. Secy.

No. ERB-I/2003/2/32—Shri K.K. Bajpai, HAG/IRSSE, Adviser (Signal), Railway Board, is appointed as Additional Member (Signal), Railway Board, in Grade Rs. 24050-26000/- with effect from the afternoon of 09.02.2004.

V.N. MATHUR, Secy., Railway Board &  
Ex-officio Addl. Secy.

The 20th February 2004

No. ERB-I/2003/10/28—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.1.2004.

- |      |                     |                    |
|------|---------------------|--------------------|
| (i)  | Shri K. Subramanian | Executive Director |
| (ii) | Shri Ashok Bhandari | Director           |

- |       |                     |                       |
|-------|---------------------|-----------------------|
| (iii) | Shri K. V. Ramana   | Joint Director        |
| (iv)  | Shri J.C. Jain      | Deputy Director       |
| (v)   | Shri Suresh Ramnani | Section Officer       |
| (vi)  | Shri Jasbir Singh   | Asstt. Hindi Officer. |
|       |                     | V.N. MATHUR, Secy.,   |

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 16th February 2004

No. A-32013/5/2001-E-II—The President is pleased to appoint Shri Indu Prakash, Chief Engineer, an officer of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' as Director General (Road Development) & Special Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 26000/- (fixed) w.e.f. 30.01.2004 (FN) for a period of three months or until further orders, whichever is earlier.

2. The aforesaid appointment of Shri Indu Prakash as Director General (Road Development) & Special Secretary on ad hoc basis is in pursuance of the Judgement/Order of the Hon'ble High Court, Delhi, vide its Order dated 21.01.2004 in CM No. 11163/2003 in CWP No. 1863/2003. Further, the said appointment is also subject to the final decision of the CWP No. 1863/2003 in the Hon'ble High Court of Delhi.

Dr. N.C. KAUSHIK, Under Secy.

No. A-38012/2/2003-E-I—Shri R. Parthasarthy, an Officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Principal Private Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways has retired on superannuation w.e.f. 31.01.2004(A/N).

Dr. N.C. KAUSHIK, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 19th February 2004

No. 7/2004 F. No. 25/1(1)/2002-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2001, the President is pleased to appoint Shri Kiran Pramanik officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 03.12.2003 (FN).

2. Shri Kiran Pramanik will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 4th February 2004

No. 18/8/2002-Estt—The President is pleased to promote the following Scientists 'D' to Scientists 'F' in the pay Scale

of Rs. 16,400-450-20,000/- under the Flexible Complementing Scheme (FCS)- with effect from the dates mentioned against their names :

Name	Present Grade	Promoted to the Grade	Date of promotion
Dr. S. Rajan	Scientist 'D'	Scientist 'F'	1.7.2003
Dr. M.P. Wakdikar	Scientist 'D'	Scientist 'F'	1.7.2003

B. L. KUREEL, Under Secy.

No. 18/8/2002-Estt—The President is pleased to promote the following Scientists 'C' to Scientists 'D' in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- under the Flexible Complementing Scheme (FCS)- with effect from the dates mentioned against their names :—

Name	Present Grade	Promoted to the Grade	Date of promotion
Sh. R.S. Kankara	Scientist 'C'	Scientist 'D'	1.7.2003
Dr. GVM Gupta	Scientist 'C'	Scientist 'D'	1.7.2003
Smt. Tuna Usha	Scientist 'C'	Scientist 'D'	1.7.2003

B. L. KUREEL, Under Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 27th January 2004

No. A-12025/1/2000-F(A)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Raghu Krishna to the post of Chief Producer

in Films Division, Mumbai in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- on contract basis for a period of 3 years with effect from the afternoon of 13th January 2004 subject to the terms and conditions of the agreement dated 29.12.2003 entered into with him.

2. The appointment of Shri Raghu Krishna will be subject to the final outcome of the Writ Petition No. 2152/2001 Shri Bankim Kapadia Vs. Union of India & Ors. pending in the High Court of Judicature at Bombay.

K. M. SASIDHARAN, Desk Officer F(A)

The 24th February 2004

No. 12025/3/98-F(A)—The President is pleased to extend the appointment of Shri C.J. Paulose to the post of Joint Chief Producer in Films Division in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- on ad-hoc promotion for a further period of 6 months with effect from the forenoon of 28th February 2004 or until the revocation of suspension of Shri Bankim Kapadia or until further orders, whichever event occurs earliest.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right for regularisation or seniority in the post of Joint Chief Producer.

K. M. SASIDHARAN, Desk Officer F(A)